

Steps for making payment for the Advt.No. KP/S/01/2020 dated 17.03.2020

1. Click the link provided for the payment, read the disclaimer clause carefully and "click check-box to proceed further"
2. Under "State of Corporate/Institution" – select "All India"
3. Under "Select Payment Category" – select "RECRUIT APPLN FEES KP/S/01/2020 0320" and proceed further accordingly

Wish you the best!

Team - Recruitment Cell

विज्ञापन सं. केपी/एस/01/2020 दिनांक 17.03.2020 के लिए भुगतान करने के चरण

1. भुगतान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अस्वीकरण खंड को ध्यान से पढ़ें और "आगे बढ़ने के लिए चेक-बॉक्स पर क्लिक करें"
2. " State of Corporate/Institution" के तहत - " All India" का चयन करें
3. " Select Payment Category " के तहत - "RECRUIT APPLN FEES KP/S/01/2020 0320" का चयन करें और तदनुसार आगे बढ़ें

शुभकामनाओं सहित!

टीम - भर्ती कक्ष